



# राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच

Forum for Awareness of National Security (FANS)

(Regd. No. S/1723/District South/2014)

101, H.I.G. DDA Flats, Block-1,

Motia Khan, Paharganj Pin Code. 110055.

M: 8178828297, 8375965010 Ph: 011-43524524

प्रस्ताव क्र.-.२

पाकिस्तान

पाकिस्तान, १९४७ में आजादी मिलने के तुरंत पश्चात ही एक आतंकवादी राष्ट्र बन गया | उसकी कोख से आतंकवादी जन्म ले रहे हैं | भारत पर उसने वर्ष १९४७, १९६५, १९७१ तथा कारगिल क्षेत्र में १९९९ में अकारण ही आक्रमण किये | १९४७ में उसने भारत पर आक्रमण के दौरान कश्मीर के एक भू भाग पर कब्जा कर लिया, जिसे आज 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' के नाम से जाना जाता है | पाकिस्तान भारत के अंदर केवल आतंकवादियों को ही नहीं भेजता है, बल्कि चोरी से भारत में ड्रग, हथियार, जाली मुद्रा आदि भेजता रहता है, ताकि यहाँ एक भय तथा अस्थिरता का माहौल बना रहे और प्रगति में बाधा हो | वह भारत को एक बार और खंडित कर के जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा करना चाहता है | जम्मू कश्मीर के अलगाववादी तत्वों को पाकिस्तान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे कर वापस भारत में भेज देता है | जब ये आतंकवादी सीमा पार करते हैं तो युद्ध विराम तोड़कर वह उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करता है |

भारत एक शांतिप्रिय देश है और सभी के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहता है || इसी कारण उसने कई बार पाकिस्तान के साथ सभी विषयों पर बात कर के सुलझाने की पहल की पर उसके सभी प्रयास निष्फल रहे || भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा | उसके पश्चात एक बार उन्होंने सभी प्रोटोकाल को दरकिनार कर के औचक ही विदेश से लौटते हुए, पाकिस्तान में जहाज से उतर कर नवाज शरीफ के घर जाकर उन्हें तथा उनके परिवार को बधाई दी क्योंकि उस दिन उनके यहाँ कोई शुभ समारोह था। पर अफ़सोस कि कुछ समय पश्चात पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट, उरी आदि सेना के ठिकानों पर आक्रमण कर दिया जिससे जान माल को क्षति पहुँची | वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान तथा आईएसआईएस को, जो आतंकवादी संगठन हैं, भारत पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उकसाता है तथा उन्हें हर प्रकार का सहयोग देता है || संयुक्त राष्ट्र ने उसे एक बर्बर राज्य घोषित कर

दिया है, वहां के हाफिज़ सईद को आतंकवादी बताया है और उस पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान को निर्देश दिए हैं परंतु पाकिस्तान उल्टे उसको सुरक्षा प्रदान करता है और उसका महिमा मंडन करता है | पाकिस्तान न तो संधियों का और न ही युद्ध विराम का सम्मान और पालन करता है | छल, कपट तथा झूठ जैसे उसे उसकी छठी में ही मिल गये हों || वह आज परमाणु राज्य बन गया है, समय समय पर परमाणु शस्त्रों के द्वारा आक्रमण करने की धमकी देता रहता है | आज पूरा विश्व सशंकित है कि यदि परमाणु शस्त्र तालिबान के हाँथ में पहुँच गए तो कुछ भी हो सकता है |

राष्ट्रीय सुरक्षा मंच भारत पाक संबंधों पर विस्तृत चर्चा कर के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करता है |

1. पाकिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता है | वह कहता कुछ है और करता कुछ है |
2. पाकिस्तान पर आतंकवादियों के प्रशिक्षण केन्द्रों को बंद कराने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना पड़ेगा |
3. अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक तथा सैन्य सहायता पर प्रतिबन्ध लगाना होगा |
4. आर्थिक सहायता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर के पाकिस्तान पर उसके द्वारा संचालित आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए दबाव डालना चाहिए तथा सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए बाध्य करना होगा |
5. भारत को पाकिस्तान के साथ कडा रुख अपनाना होगा | उसकी हर छेड़खानी का उत्तर कठोरता से देना होगा | आवश्यकतानुसार उसकी सीमा के अंदर घुसकर उसके आतंकी प्रशिक्षण ठिकानों को नष्ट करने में भारत को कोई झिझक नहीं होनी चाहिए |
6. यदि पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण करने की आशंका हो तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए पहल कर के उस पर आक्रमण कराना चाहिये |
7. पाकिस्तान के सीमावर्ती आतंकवादी ठिकानों को सीमा के पार घुस कर नष्ट कर देना चाहिए |